



प्रेस नोट

थाना पिलखुवा जनपद हापुड़

दिनांक – 06.03.2021

थाना पिलखुवा पुलिस ने दिल्ली से पैरोल पर छूटे व लगभग 10 वर्ष से फरार 50,000 रु0 का ईनामी (दिल्ली से ईनामी) शातिर अपराधी बाद पुलिस मुठभेड किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 1 अवैध तमंचा मय 01जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड़ द्वारा वांछित /इनामिया अभि0गण के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पिलखुवा के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक पिलखुवा व उनकी टीम को सफलता प्राप्त हुयी जब मुखबिर की सूचना पर बाद पुलिस मुठभेड एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर के साथ एक अभियुक्त को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह किसी घटना को कारित करने की फिराक मे था। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त उदयवीर सिंह पुत्र सेठू सिंह नि0 ग्राम कादरगढ थाना थानाभवन जनपद शामली थाना पश्चिम विहार ईस्ट दिल्ली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 658/1997 धारा 302/307/397/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबधित अभियुक्त है और उक्त अभियोग मे उसे मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दण्डित किया जा चुका है तथा वह दिल्ली तिहाड जेल से वर्ष 2010 में पैरोल पर छूटने के पश्चात से लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु दिल्ली पुलिस की विभिन्न टीमों व स्पेशल सैल द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे। जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल के आदेश संख्या 327/सी आर सैल (एस – IV) स्पेशल सैल दिनांक 27/1/2021के द्वारा 50000 रुपये का ईनाम घोषित है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0- 105/21 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 -106/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

उदयवीर सिंह पुत्र सेठू सिंह नि0 कादरगढ थाना भवन जनपद शामली

बरामदगी:-

एक अदद अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 658/1997 धारा 302/307/397/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पश्चिम विहार ईस्ट दिल्ली
2. मु0अ0सं0- 105/21 धारा 307 भादवि थाना पिलखुवा जनपद हापुड़
3. मु0अ0सं0 -106/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा जनपद हापुड़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड़
2. का0 524 गजेन्द्र शर्मा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़
3. का0 158 सुमित कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड़